

Inspection Report for Flood Damage work

Date:-

1 Name of PIUS :-

Er. Rgn Ratan Rgn

2 Name of Block :-

Sham Nagar

3 Name of Road :-

Chubatur Ganga Ghat Harjora Ghat

A. For Road

1 Damage Location/Chainage :-

2 Damage Length :- cutting in Road, Damage in flanks

3 Nature of damage :- flood, cutting in road.

4 Details of Restoration Works :- E. sand bag, sand filling, Bombor filling, filling in

i Material being used in Restoration works:-

ii Equipments/Tools being used in Restoration works :-

iii Procedure taken up in Restoration works :-

iv Restored Length :-

Bombor, L. sand, Bricks,
Manually / Machinery.

B. For Bridge

1 Damage Location/Chainage :-

2 Damage Length :-

3 Nature of damage :-

4 Details of Restoration Works :-

i Material being used in Restoration works:-

ii Equipments/Tools being used in Restoration works :-

iii Procedure taken up in Restoration works :-


iv Restored Length :-


JE 24/7/24

AE


EE

check and found satisfactory.


Signature
(Name of inspector)



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

BIHAR RURAL ROADS PROJECT

Bihar Rural Development Agency (BRRDA)

Head :- F.D.R.

YEAR (2021-22)

STATE
DISTRICT
BLOCK
DIVISION

BIHAR
MADHEPURA
ALAMNAGAR
UDAKISHANGANJ

DETAILED ESTIMAE FOR TEMPORARY RESTORATION
OF ROAD FROM L034-T05 CHUBATUA GANGAPUR TO
HARIORAGHAT

Actual Length of Road	=	2.736 Km
Flood affected Length of Road	=	0.097 Km
TOTAL COST OF PAVEMENT	Rs	2,817,067.50
TOTAL PROJECT COST	Rs	2,817,067.50

Submitted By:
Executive Engineer
RWD (W) Division, Udakishanganj

Prepared By:
Executive Engineer
RWD (W) Division, Udakishanganj

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, सरकार

पत्रांक - मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/07/2021

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल (भा0प्र0से0)
सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,

विषय- बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों/पुलियों को यातायात लायक (Motorable) करने के संबंध में।

नहाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश दिया जाता है कि प्रमंडल अन्तर्गत सभी अभियंता बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का शत प्रतिशत निरीक्षण करेंगे। पथों/पुलियों के क्षतिग्रस्त भाग से पानी उतरते ही उसे यातायात लायक बनाने की कार्रवाई एवं Motorable किये जाने से पहले तथा Motorable कार्य के बाद का Real time, Geo tagged photographs को MIS पर तत्क्षण अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन कार्यों को कराने हेतु कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य न कराने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन

(पंकज कुमार पाल)

सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/7/2021

प्रतिलिपि:-सभी अधीक्षण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे लगातार अनुश्रवण एवं निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त भाग को अतिशीघ्र यातायात लायक बनाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/7/2021

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं लगातार अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित।

SUMMARY OF COST ESTIMATE FOR THE PROJECT

NAME OF ROAD :- DETAILED ESTIMAE FOR TEMPORARY
RESTORATION OF ROAD FROM L034-T05
CHUBATUA GANGAPUR TO


DIVISION :- UDAKISHANGANJ

BLOCK :- ALAMNAGAR


Actual Length of Road :- 2.736 Km

Flood Affected Length of Road :- 0.097 Km

Sr. No.	Description	Amount (In Rs.)
1	Total Cost of Restoration=	2,442,320.90
2	Add:-Labour Cess @1% amt. =	24,423.21
3	Add:GST@12% on amt. =	293,078.51
4	Add:S.F.@ 10% on Material (Brick Bats) =	57,244.89
TOTAL RESTORATION COST OF THE PROJECT IN LACS		2,817,067.50



Junior Engineer
RWD (W) Division, Udakishanganj

Assistant Engineer
RWD (W) Division, Udakishanganj


Executive Engineer
RWD (W) Division, Udakishanganj

पत्रांक छु डा ५ (मु०) विविच (कार्य) २३-२९१/२०१९ -
५८५९ दिनांक - २०/१२/२०२१

Technically Sanctioned for Rs 2817067=00
(Rs Twenty eight lacs seventeen thousand -
sixty seven) only.

॥  20/04/22

Superntending Engineer
Rural Works Department
Works Circle Madhepura

Schedule of Quantity

NAME OF ROAD :-

**DETAILED ESTIMAE FOR TEMPORARY RESTORATION OF
ROAD FROM L034-T05 CHUBATUA GANGAPUR TO**

BLOCK :

ALAMNAGAR

S.No	SOR NO	DESRPTION OF ITEMS	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	301.5	Sand filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification	2051.98	Cum	582.71	Rs. 1,195,715.38
2	A/R	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	165.80	Cum	1922.87	Rs. 318,811.85
3	5.7.7	Labour for cutting 62mm to 75 mm dia bamboo piles to size and making shoes and driving etc. complete job as per specification and direction of E/I	945.00	m	45.86	Rs. 43,342.35
4	5.7.8	Labour for fitting and fixing Split bamboo woven chachari in position with 20 swg G.I wire or 75 mm to 100 mm long nails alternatively including cost of G.I. wire or nails complete job as per specification and direction of E/I	0.00	sqm	78.20	Rs. 0.00
5	5.7.9	Labour for fitting and fixing 75 mm dia bamboo runners in position at every vertical pole with 150 mm long nails or 38 swg G.I. wire including cost of G.I wire or nails complete job as per specification and direction of E/I	206.50	m	5.31	Rs. 1,095.89
6		Supply of Bamboo at site.	192.00	nos.	188.39	Rs. 36,170.16
7	5.7.40.1	Labour filling empty cement bags with loocal sand, stitching the bags and placing including supply of sutli and EC bag etc. all complete as per approved desing, specification and direction of E/I	22864.00	nos.	37.05	Rs. 847,185.28
8		Providing, laying and filling Geo bags of size 1m X 0.7 m (Type A 300 GSM nonwoven) weight of bags 420g volume of filled bag 0.07m3. weight of filled Geo bags 126 Kg with local sand including stitching in four lines by approved nylon thread with stitching machine and generator stacking and placing after loading unloading and carriage with help of trolley within 150m lead all complete as per specifications and direction of E/I (including Carriage of Local sand lead 0.5 km)	0.00	Each	172.18	Rs. 0.00
9	401	Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader arrangement on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401.	0.00	Cum	2091.76	Rs. 0.00
10	9.3	Providing and Laying Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Roww(1000mm Dia).	0.00	m	4046.57	Rs. 0.00
		Total			Rs.	Rs. 2,442,320.90

Handwritten signature
JE 24/07/21

AE

Handwritten signature
EE 25/07/21

Calculation of Seigniorage Fees

DETAILED ESTIMAE FOR TEMPORARY RESTORATION OF ROAD FROM L034-T05 CHUBATUA
NAME OF ROAD :- GANGAPUR TO HARJORAGHAT
BLOCK :- ALAMNAGAR

S.No	SOR NO	DESCRIPTION OF ITEMS	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1/1	12.3	Sand filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification				
		E/W	2051.98	Cum	141.85	291072.65
2/2	A/R	Providing & laying Brick Bat...				
		Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.				
		Brick Bats	165.80	Cum	1032.00	171105.60
3/7	5.7.40.1	Labour filling empty cement bags with loocal sand, stitching the bags and placing including supply of sutli and EC bag etc. all complete as per approved desing, specification and direction of E/I				
		Sand	777.38	Cum	141.85	110270.64
4/8	5.7.40.2	Providing,laying and filling Geo bags of size 1m X 0.7 m(Type A 300 GSM nonwoven) weight of bags 420g volume of filled bag 0.07m3. weight of filled Geo bags 126 Kg with local sand including stitching in four lines by approved nylon thread with stitching machine and generator stacking and placing after loading unloading and carriage with help of trolley within 150m lead all complete as per specifications and direction of E/I (including Carriage of Local sand lead 0.5 km)				
		Sand	0.00	Cum	141.85	0.00
5/9	401	Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader arrangement on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401.				
		For Grading I Material (with Coarse Sand Screening)				
		Unit = Cum				
		Taking output = 300 cum				
		Coarse graded granular sub-base material as per Table 400.2				
		53 mm to 9.5mm @ 50 percent	180.00	Cum	516.42	92955.60
		9.5 mm to 2.36 mm @ 20 percent	72.00	Cum	411.33	29615.76
		2.36 mm below @ 30 percent (coarse Sand Screening)	108.00	Cum	185.94	20081.52
						142652.88
		Cost for 300 cum = a				475.51
		Rate psr Cum = (a)/300		Cum		0.00
			0.00	Cum	475.51	0.00
		GSB Gr-I				0.00
					TOTAL	572448.90
		Seigniorage Fees @10% of Basic Amount			Say	57244.89

JE

AE

EE

Details of Measurement

कार्य का ब्यौरा Deatail of Workl		संख्या No.	ISekbZI Measurement				मात्रा Quantity
			लम्बाई in m.		चौड़ाई In m.	In m.	
DETAILED ESTIMAE FOR TEMPORARY RESTORATION OF ROAD FROM L034-T05 CHUBATUA GANGAPUR TO HARJORAGHAT							
NAME OF ROAD :-							
Item No. 1	Sand filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification						
Ch:-in	1	15		6.5		6.00	585.000
Ch:-in	1	11.5		7.25		6.50	541.938
Ch:-in	1	13.5		6		6.00	486.000
Ch:-in	1	22.5		4.5		0.40	40.500
Ch:-in	1	23.5		4		0.40	37.600
Ch:-in	1	10.5		6.25		5.50	360.938
Total (in Cum)							2051.975
Item No. 2	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machedical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.						
Laying Brick	1	15.00		4.00		0.40	24.000
	1	11.50		5.50		0.40	25.300
	1	13.50		4.00		0.40	21.600
	1	22.50		4.50		0.40	40.500
	1	23.50		4.00		0.40	37.600
	1	10.50		4.00		0.40	16.800
		96.50					165.800
Less For Pipe	0	22/7x(0.6)2x2.5 (-)					0.000
Total (in Cum)							165.800
Item No. 3	Labour for cutting 62mm to 75 mm dia bamboo piles to size and making shoes and driving etc. complete job as per specification and direction of E/I						
CH:-in	2	65				3.5	455.000
CH:-in	2	70				3.5	490.000
For Bamboo pilling 1.25m							
Total (in m)							945.000
Item No. 4	Labour for fitting and fixing Split bamboo woven chachari in position with 20 swg G.I wire or 75 mm to 100 mm long nails alternatively including cost of G.I. wire or nails complete job as per specification and direction of E/I						
Size 6m*2m, Ch-.2nd km	0	8		0.9			0.00
For Chachary 01 no.(6m) Bamboo=1.413 sqm	0	10.7		2			0.00
Total (in sqm)							0.00
Total (in m)							0.00
Item No. 5	Labour for fitting and fixing 75 mm dia bamboo runners in position at every vertical pole with 150 mm long nails or 38 swg G.I. wire including cost of G.I wire or nails complete job as per specification and direction of E/I						
CH:-in	5	22.5					112.50
CH:-in	4	23.5					94.00
Total (in m)							206.50
Item No. 6	Supply of Bamboo at site.						
Total (in m)							1151.50
Total (in nos.)							191.92
							192.00
Item No. 7	Labour filling empty cement bags with loocal sand, stitching the bags and placing including supply of sutli and EC bag etc. all complete as per approved desing, specification and direction of E/I						
CH:-in	2	22.50		4.5		1.75	354.38
CH:-in	2	23.50		4.0		2.25	423.00
Total (in cum)							777.38
							22863.97
(0.034m3=1 no. of EC Bags)							22864.00
Total (in nos)							
Item No. 8	Providing,laying and filling Geo bags of size 1m X 0.7 m(Type A 300 GSM nonwoven) weight of bags 420g by volume of filled bag 0.07m3. weight of filled Geo bags 126 Kg with local sand including stitching in four lines by approved nylon thread with stitching machine and generator stacking and placing after loading unloading and carriage with help of trolley within 150m lead all complete as per specifications and direction of E/I (including Carriage of Local sand lead 0.5 km)						
	1	0		3.5		1.2	0.00

[illegible]

[Signature]

Analysis for Carriage by Road & Rail

Name of Road:- DETAILED ESTIMAE FOR TEMPORARY RESTORATION OF ROAD FROM L034-T05 CHUBATUA GANGAPUR TO HARJORAGHAT

District:- MADHEPURA

Block :- ALAMNAGAR

Sl No	Item with Source	Unit	Source Up to	Carriage Cost & Lead in Km		Katcha	Loading & Unloading Cost	Carriage Cost by Rail Head	Total
1	Stone Metal Gr-I & Gr-II	Cum	Sheikhpura	8.00 4.59	x 8.20 x 35.00 Km = Rs 500.22	8.00 x 19.80 x 0.00 Km = Rs 0.00	89.90	1243.54	Rs. 1833.66
2	Stone Metal Gr-III / GSB	Cum	Sheikhpura	8.00 4.99	x 8.20 x 35.00 Km = Rs 460.12	8.00 x 19.80 x 0.00 Km = Rs 0.00	89.90	1166.59	Rs. 1716.61
3	Stone Aggregate / Chips	Cum	Mirzachowki	8.00 4.99	x 8.20 x 35.00 Km = Rs 460.12	8.00 x 19.80 x 0.00 Km = Rs 0.00	89.90	1166.59	Rs. 1716.61
4	Stone Aggregate / Chips	Cum	Mirzachowki	8.00 4.99	x 8.20 x 35.00 Km = Rs 460.12	8.00 x 19.80 x 0.00 Km = Rs 0.00	89.90	1248.39	Rs. 1798.41
4	Stone Boulder	Cum	Sheikhpura	8.00 4.80	x 8.20 x 35.00 Km = Rs 478.33	8.00 x 19.80 x 0.00 Km = Rs 0.00	89.90	1201.54	Rs. 1769.77
5	Coarse Sand	Cum	Jagdishpur	8.00 4.99	x 7.47 x 225.00 Km = Rs 2694.59	8.00 x 18.09 x 0.00 Km = Rs 0.00	104.88		Rs. 2799.47
6	Binding Material/Moorum	Cum	Sheikhpura	8.00 6.00	x 7.47 x 35.00 Km = Rs 348.60	8.00 x 19.80 x 0.00 Km = Rs 0.00	104.88		Rs. 453.48
7	Local Sand	Cum	Local	8.00 4.99	x 7.47 x 2.00 Km = Rs 23.95	8.00 x 17.82 x 1.00 Km = Rs 28.57	104.88		Rs. 157.40
8	Brick	1000 Nos	Local	8.00 2.00	x 7.47 x 7.00 Km = Rs 209.16	8.00 x 18.09 x 1.00 Km = Rs 72.36	417.46		Rs. 698.98
9	Cement	MT	Local	8.00	x 7.47 x 35.00 Km = Rs 261.45	8.00 x 18.09 x 0.00 Km = Rs 0.00	299.38		Rs. 560.83
10	Steel	MT	Local	8.00	x 7.47 x 35.00 Km = Rs 261.45	8.00 x 18.09 x 0.00 Km = Rs 0.00	318.00		Rs. 579.45
11	Bitumen Emulsion	MT	Barauni	8.00	x 7.47 x 220.00 Km = Rs 1643.40	8.00 x 18.09 x 0.00 Km = Rs 0.00	344.50	0.00	Rs. 1987.90
12	Bitumen	MT	Muzaffarpur	8.00	x 7.47 x 178.00 Km = Rs 1329.66	8.00 x 18.09 x 0.00 Km = Rs 0.00	344.50		Rs. 1674.16
13	Hume Pipe (1000 mm)	m	Karjain	8.00 10.00	x 7.47 x 106.00 Km = Rs 633.46	8.00 x 18.09 x 0.00 Km = Rs 0.00	73.32		Rs. 706.78
14	Hume Pipe (600 mm)	m	Karjain	8.00 7.50	x 7.47 x 106.00 Km = Rs 253.38	8.00 x 18.09 x 0.00 Km = Rs 0.00	31.42		Rs. 284.80
15	Hume Pipe (300 mm)	m	Karjain	8.00 60.00	x 7.47 x 106.00 Km = Rs 105.58	8.00 x 18.09 x 0.00 Km = Rs 0.00	31.42		Rs. 137.00
16	Brick Bats	Nos.	Local	3.60 2.25	x 19.63 x 5.00 Km = Rs 157.04	3.60 x 29.03 x 2.00 Km = Rs 92.90	194.82		Rs. 444.76

Cost of Haulage Excluding Loading & Unloading as per SOR * Subjected to Verification of Lead

Type of Road	Per Ton. Km by Tipper	Per Ton. Km by Truck
For Surface Road	8.20	7.47
Unsurface Gravel Road	9.90	8.99
Kachha Road	19.80	18.09

Type of Road	Per Ton. Km by Truck	Per Ton. Km by
For Surface Road	19.63	
Unsurface Gravel Road	24.53	
Kachha Road	29.03	

BASIC RATES
(A) Labour

Sl. No.	Description of Labour	Unit	Rate (Rs.)
L-01	Bhisti	day	287.00
L-02	Bitumen Sprayer	day	302.00
L-03	Blacksmith	day	388.00
L-04	Blaster	day	477.00
L-05	Carpenter 1st Class	day	388.00
L-06	Carpenter 2nd Class	day	345.00
L-07	Chips spreader	day	345.00
L-08	Chiseller	day	364.00
L-09	Dresser (Skilled)	day	367.00
L-10	Driller	day	345.00
L-11	Electrician	day	367.00
L-12	Fitter	day	395.00
L-13	Mason (1st class)	day	388.00
L-14	Mason (2nd Class)	day	345.00
L-15	Mate	day	305.00
L-16	Mazdoor (Unskilled)	day	287.00
L-17	Mazdoor (Semi skilled)	day	299.00
L-18	Mazdoor (Skilled)	day	364.00
L-19	Painter (1st class)	day	367.00
L-20	Plumber	day	349.00
L-21	Surveyor	day	349.00
L-22	White Washer	day	364.00

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा।
पत्रांक.....483/अनु 0

प्रेषक,

ई0 खलीकुज्जमा,
अधीक्षण अभियंता,

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
F.D.R., कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक 20/04/2022

विषय : ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज के अन्तर्गत शीर्ष **FDR** (वित्तीय वर्ष **2021-22**) योजना का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांशों का अस्थाई पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन के प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज का पत्रांक **722** अनु0, दिनांक **12.04.2022** एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-मु0अ0-4(मु0)विविध(कार्य)23-291/2019-4849 पटना, दिनांक **07.12.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज अन्तर्गत शीर्ष **FDR** (वित्तीय वर्ष **2021-22**) योजना का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांशों का अस्थाई पुनर्स्थापन कार्य का डी0पी0आर0 एक-एक प्रति में तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर प्रशासनिक अनुमोदन हेतु समर्पित की जाती है। जिसकी विवरणी निम्नवत है।

क्र0	प्रखंड	योजना का नाम	क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई (KM)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (Lakh)
1.	Alamnagar	L025-T-05 SONAMUKHI to MURAUT (VR12)	0.050	20.23962
2.	Alamnagar	L034-T-05 CHUBATUA GANGAPUR TO HARJORAGHT (VR20)	0.097	28.17067
3.	Alamnagar	L035-T-05 BHARSO TOLA TO KACHAHARI TOLA (VR21)	0.210	17.67956
4.	Alamnagar	Construction of road from Alamnagar SonaMukhi kakpsila with five years maintainance with 2 no. H.L bridge.	0.300	34.63060
5.	Alamnagar	Construction of road from Alamnagar fullaut road with five year maintenance with 2 nos. of H.L bridges.	0.072	6.02269
6.	Bihariganj	S01school Ke Nikat Se to Vairaw Patti	0.087	7.01604

P.T.O.

क्र०	प्रखंड	योजना का नाम	क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई (KM)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (Lakh)
7.	Chausa	Construction of road from Dhaneshpur to morsanda with five years maintenance.	0.082	5.27416
8.	Chausa	Adhik Mandal Parbatta Bsabitti Ke Nikat To Sripurbasa PCC via Parbatta	0.146	5.74302
9.	Chausa	Khoparia Tola Lowalagan To baba bishuraut Sthan	0.045	6.24997
10.	Chausa	L036-T01 TO SHABA TOLA (VR11)	0.733	20.33275
11.	Gwalpara	Resna PMGSY Path To Kamalpur	0.136	7.15886
12.	Gwalpara	Baliya Basa REO Road To Amauja	0.060	11.57017
13.	Gwalpara	L036-Gwalpara to biswari (VR7)	0.181	9.01073
14.	Chausa	Construction of H.L Bridge Over Bariyari Dhar Sapni Fulaut Pandahi Path.	0.075	7.41311
15.	Puraini	Durga PMGSY Path Paina via Durgapur Goth Chhoti Badhona	0.142	20.25279
16.	Puraini	Kherho paschim Tola PMGSY Path To Dhaneshpur Via Goth Kherho	0.020	2.94972
17.	Udakishanganj	Construction of road from Kishanganj to Biriranpal with five years maintenance	0.110	8.49447
18.	Udakishanganj	L044-T04NH106UDA TO TINTANGA (VR31)	0.024	5.66868
19.	Udakishanganj	NH106 hareli to ramesh yadav ke ghar hotehu wevidyanand jha ke ghar ke aage Rampur khorha PWD road tak	0.099	5.06052
20.	Udakishanganj	Laxmipur - Majaura	0.483	11.09571

अनु०:-प्राक्कलन एक-एक प्रति में।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल,
मधेपुरा।